

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2016—आषाढ 10, शक 1938

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.